



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1931 (श0)
(सं0 पटना 233) पटना, मंगलवार, 2 जून 2009

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

1 जून 2009

एस0 ओ0-96, दिनांक 2 जून 2009—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्वद से भी परमर्श के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजन विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में उल्लेखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर प्रायोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1 (अ) स्तंभ-2 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची-1 (अ) के स्तंभ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,08	143	4.63x4.93	3264.11
अगस्त,08	145	4.63x4.93	3309.76
सितम्बर,08	146	4.63x4.93	3332.59
अक्टूबर,08	148	4.63x4.93	3378.24
नवम्बर,08	148	4.63x4.93	3378.24
दिसम्बर,08	147	4.63x4.93	3355.41
योग			20018.35
औसत			3336.40

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम— घरेलू कामगार

अधिसूचना संख्या 4444 तिथि— 05.12.2007

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	मूल न्यूनतम मजदूरी रूपया प्रतिमाह	भी0डी0ए0 प्रभावी की तिथि-01.04.09	दि0 01.04.09 को कुल मजदूरी (3+4) रूपया प्रतिमाह	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बरतन धोना (01घंटा)	रू0 244.00	रू0 59.00	रू0 303.00	
2	कपड़ा धोना/बरतन धोना (01 घंटा)	रू0 244.00	रू0 59.00	रू0 303.00	
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (01घंटा)	रू0 244.00	रू0 59.00	रू0 303.00	
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	रू0 1950.00	रू0 471.00	रू0 2421.00	
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना/बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलु विविध कार्य करना । (08 घंटा)	रू0 1950.00	रू0 471.00	रू0 2421.00	

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त

दर से जुलाई-दिसम्बर 2008 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2009 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401/07/श्र0सं01655)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के उप-सचिव।

1 जून 2009

एस0ओ0 97, एस0ओ0 96, दिनांक 2 जून 2009 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401 /07/श्र0सं01656)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के उप-सचिव।

The 1st June 2009

S.O.96 , dated the 2nd June 2009—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) , read with the clause (B) of sub section (1) of section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed / revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in columne-02 of schedule- 1 (B) here to appended for the month shown in colum-2 of the said schedule shall be shown in colum-04 of the schedule- 1 (A) for the purpose of clause (d) of section-02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base Year	Changed Index No. for base year (1960-100)
July,08	143	4.63x4.93	3264.11
Aug- 08	145	4.63x4.93	3309.76
Sept-,08	146	4.63x4.93	3332.59
Oct-08	148	4.63x4.93	3378.24
Nov-08	148	4.63x4.93	3378.24
Dec-08	147	4.63x4.93	3355.41
Total	-	-	20018.35
Average	-	-	3336.40

SCHEDULE -1 (B)

1- Name of Employment :- **Domestic Workers**
Notification No.- 4444 date:-05-12-2007

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Worker	Basic Minimum Wage per month	V.D.A Effective date 01-04-2009	Total wage from 01-04-09 (3+4) per month	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Washing the utensils (One hours)	Rs. 244.00	Rs. 59.00	Rs. 303.00	-
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (One hours)	Rs. 244.00	Rs. 59.00	Rs. 303.00	-
3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (One hours)	Rs. 244.00	Rs. 59.00	Rs. 303.00	-
4	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	Rs. 1950-00	Rs. 471.00	Rs. 2421.00	-
5	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works. (Eight hours)	Rs. 1950-00	Rs. 471.00	Rs. 2421.00	-

These rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer price index on which the variable Dearness Allowance has been fixed / revised in the above schedule employments. there will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components . But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised .The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July to December,2008 payable at the aforesaid rates from April,2009 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of all India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No.5/M.W.- 401/07/ 1655-L&R)
By order of the Governor of Bihar,
SIRAJUDDIN ANSARI,
Dy. Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 233-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>